

वी.यू. में दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में “ब्रेन स्ट्रामिंग सेशन ऑन वाइल्ड लाइफ फोरन्सिक एवं हेल्थ” विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ डॉ. पी.एस. पांडे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, एजुकेशन डिवीजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के मुख्य आतिथ्य एवं डॉ. संजय शुक्ला, फील्ड डायरेक्टर कान्हा टाइगर रिज़र्व श्री. दिलीप कुमार प्रमुख वन संरक्षक के विशिष्ट आतिथ्य एवं माननीय कुलपति डॉ. प्रयाग दत्त जुयाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुये डॉ. बी.सी. सरखेल ने सभी अतिथियों



का स्वागत किया एवं विभाग की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. पी.एस. पांडे ने इस अवसर पर कहा की पशुओं का उपचार करना बहुत कठिन कार्य है इससे भी अधिक कठिन कार्य वन्य प्राणियों की बीमारियों का निदान एवं उपचार करना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली की अपेक्षा है की इस क्षेत्र में अत्याधुनिक



तकनीकों के माध्यम से बीमारियों का अति उत्तम इलाज़ होना चाहिए। आज हमने ऐसी तकनीकों का विकास कर लिया है जिससे वन्य प्राणियों के बाल से भी हम उसकी प्रजाति का पता लगा सकते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से ब्रीड का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने छात्रों से अपेक्षा की कि आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पशु उपचार एवं उत्पादन में नई उचईयों को प्राप्त करके समाज की सेवा करनी चाहिये।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वी.वी. के माननीय कुलपति डॉ. प्रयाग दत्त जुयाल ने कहा की नानाजी देशमुख का कहना था की मैं अपनों के लिये हू और अपना वो है जो पीड़ित है। इस सपने को पूरा करने हेतु विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है एवं पशुपालक जो समाज का अंतिम छोर है, इस तक अपनी सेवाए पंहुचा रहा है। डॉ. जुयाल ने वी.वी. में चल रहे शिक्षण अनुसंधान एवं विस्तार कार्यों की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि इस वाइल्ड लाइफ स्कूल में वन्य प्राणियों हेतु बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। एवं भविष्य में इसे नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया जायेगा। वर्तमान में रोजड नील गाय की बढ़ती जनसंख्या को

रोकने हेतु ऐसी वैक्सीन इंजेक्शन तैयार करने का प्रस्ताव है। जिससे उनकी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से आग्रह किया की वी.वी. में ऑडिटोरियम, आतिथि गृह एवं कन्या छात्रावास की आवश्यकता है जिसे शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान की जाये। जिससे कार्य और सुचारु रूप से किया जा सके। प्रस्ताव आई.सी.ए.आर. में लंबित है।

माननीय कुलपति डॉ.जुयाल ने डॉ. पी.एस. पांडे को महाविद्यालय अस्पताल, एनाटॉमी विभाग, पंचगव्य इकाई, कन्या छात्रावास का भ्रमण कराया।

इस अवसर पर डॉ. संजय शुक्ला, एवं श्री दिलीप कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

कार्यक्रम में डॉ. संजय शुक्ला एवं श्री दि लीप कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

कार्यक्रम में डॉ. बी.एम. अरोरा, डॉ. ए.बी. श्रीवास्तव, डॉ. के.के. शर्मा, रजिस्ट्रार डॉ. जी.पी. पाण्डे, डीन फेकल्टी डॉ. एस.एन.एस. परमार, डीन डॉ. आर.पी.एस. बघेल, डायरेक्टर रिसर्च डॉ. वाय.पी. साहनी, डॉ. ओ.पी. श्रीवास्तव, डॉ. व्ही. के. भट्ट, डॉ. पी.सी. शुक्ला, डॉ. आर.के. शर्मा, डॉ. मधु स्वामी सहित समस्त प्राध्यापकों एवं छात्रों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. निधि राजपूत एवं आभार प्रदर्शन डॉ. के.पी.सिंह ने किया।

डॉ. ओ.पी.श्रीवास्तव

सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी
ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर